



TRF LIMITED

Ref :SEC:152

July 24, 2023

The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: **505854**

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: **TRF**

Dear Madam, Sir,

Sub: Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with General Circular nos. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in the following newspapers for the attention of the Equity Shareholders of the Company, intimating that the 60th Annual General Meeting of TRFLimited is scheduled to be held on Thursday, August 17, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conference/Other Audio Visual Means:

1. Financial Express
2. Prabhat Khabar

The above information is also available on the website of the Company at www.trf.co.in

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
TRF Limited

Prasun Banerjee
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

Lexus set to foray into used car biz

To roll out first EV in India by 2025

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 23

LUXURY CARMAKER LEXUS from next year is looking to foray into the used car business in India, having now completed six years in the market, according to a top company official.

The Japanese carmaker, which currently sells its product range through 23 touch points, aims to transition some of the sales outlets to also cater to the pre-owned car vertical.

Known for its self-charging hybrid cars, Lexus is now gearing up to roll out its first electric model in the country by 2025.

In an interaction with PTI, Lexus India President Naveen Soni said the automaker is now seriously considering the introduction of a structured pre-owned car programme.

He noted that the company will initiate the programme in select outlets after taking into account the business viability of the dealer partner.

“So I think very soon, by the third quarter or maybe next year beginning, I should say,” he stated when asked about the timeframe the company was looking to get into the used car segment.

Soni stated that the automaker is studying the market very keenly. “For us, the starting point would be cities where there is a sizable vehicle park,” he added.

Soni noted that the company started selling vehicles in the country six years ago and there may be customers now who may like to sell their cars and upgrade to a new set of wheels.



TO BE STARTED AT SELECT OUTLETS

■ Lexus India President Naveen Soni said they will launch the plan in select outlets after taking into account the business viability of the dealer partner.

■ Soni stated that the automaker is studying the market very keenly. “For us, the starting point would be cities where there is a sizable vehicle park,” he added.

“So I think the time is ripe for at least some centres to transition into standalone used car outlets,” he stated.

The company is also considering giving a short buyback scheme so that the consumer gets confidence, Soni said.

When asked about the company's electric vehicle strategy, he noted that the company had brought in a few vehicles last year to test them in the diverse climatic conditions as well as get customer feedback.

“So we've got very good information about the behaviour pattern in these markets, like summer conditions, testing conditions, desert conditions, all that has gone back to Japan. Hopefully, by 2025 we should have our first EV product coming to this country,” Soni said.

Lexus, which is the luxury car arm of Japanese auto major Toyota, has been mandated to take the front-runner role within the group in electric technology.

Lexus aims to go fully electric by 2035.

Commenting on the sales outlook, Soni noted that the company is on the verge of surpassing its last year's volumes by July-end this year.

He noted that 2023 would turn out to be the best year for the luxury car segment in India, surpassing the peak achieved in 2018.

“By the end of July, we would have done the same business as we did the entire last year...definitely will overtake the previous highest...I think we should do between 42,000 to 45,000 as an industry this year,” Soni said.

The luxury car industry in India was peaking in 2018 with around 40,000 units a year but came down to 20,000 units in the next two years due to the Covid-19 related disruptions.

He noted that the company has increased its reach across the country by enhancing its sales network to 23 from four outlets in four cities a few years ago.

Kia India aims for 10% sales growth

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 23

AUTOMAKER KIA INDIA expects its sales to grow by 8-10% this year as compared with 2022 on the back of improved chip supplies and introduction of the updated Seltos in the market, according to a senior company official.

The South Korean carmaker, which sells models like Carens, Sonet and Seltos in the Indian market, sold a total of 3.4 lakh units in the domestic and export markets last year.

“So last year our domestic sales were about 2.54 lakh units while exports stood at around 80,000 units. So we did about 3.34 lakh units overall. So this year we are looking at about 8-10% growth,” Kia India National Head (Sales and Marketing) Hardeep S Brar told PTI in an interaction.

He noted that the company has outpaced the overall passenger industry growth in the first half of the year and expects to do the same in the second half as well.

A TATA Enterprise TRF LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L74210JH1962PLC000700
Regd. Office: 11, Station Road, Burmahines, Jamshedpur, Jharkhand-831007
Tel: +91 657 2345727, Email: comp_sec@trf.co.in, Website: www.trf.co.in

PUBLIC NOTICE - 60th ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 60th Annual General Meeting (“AGM/Meeting”) of Members of TRF Limited (“the Company”) will be held on Thursday, August 17, 2023 at 11:00 a.m. (IST), through Video Conference (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) to transact the businesses as set out in Notice convening the AGM. The VC/OAVM facility is provided by the National Securities Depositories Limited (“NSDL”). This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with notifications and General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being December 28, 2022 (collectively referred to as “MCA Circulars”). Further, SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode.

The Notice of the AGM along with the Annual Report and Annual Accounts for the Financial Year 2022-23 (“Annual Report”) of the Company will be available on the website of the Company at www.trf.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM along with the Annual Report will also be available on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited (“BSE”) at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) at www.nseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY. The detailed instructions with respect to such participation will be provided in the Notice convening the Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent (“RTA”) / Depository Participants (“DPs”) / Depositories.

Members who have not registered their email addresses with the Company/RTA are requested to follow the process mentioned below and register their e-mail addresses no later than 3:00 p.m. (IST) on Thursday, August 10, 2023, so as to receive electronically (a) The Notice of AGM and Annual Report; and (b) login ID and password for e-Voting:

Process for registering e-mail address
a) Visit the link https://tclplinkintecm.co.in/EmailReg/Email_Register.html
b) Select the name of the Company “TRF Limited” from drop-down list,
c) Enter details in respective fields such as DP ID and client ID (If shares held in electronic form)/Folio no. and Certificate no. (If shares held in physical form), Shareholder name, PAN, mobile no. and e-mail id.
d) System will generate and send OTP on mobile no. and e-mail id.
e) Enter OTP received on mobile no. and e-mail and submit.

For permanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their DPs. Members holding shares in physical form, are requested to visit <https://tclplindia.co.in/client-downloads.html> to know more about registration process.

Voting Information

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as may be set forth in the Notice of the AGM through e-voting system of NSDL.

The remote e-voting details are:

Remote e-Voting start date and time	Monday, August 14, 2023 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-Voting end date and time	Wednesday, August 16, 2023 at 5:00 p.m. (IST)

Detailed instructions pertaining to (a) Remote e-Voting before the AGM, (b) e-Voting during the AGM and (c) attending the AGM through VC/OAVM will be provided in “Notes” section to the Notice of the AGM.

TRF Limited
Sd/-
Prasan Banerjee
Company Secretary and Compliance Officer
ACS: 29791

July 22, 2023
Jamshedpur

'Remote working preferred by employees'

AS REMOTE WORKING and flexible work arrangements take precedence over salary for a large number of jobseekers, experts see this as an opportunity to attract and retain talent.

According to a survey titled “The Job Search Process: A Look from the Inside Out”, two thirds

of respondents prioritise hybrid or remote working engagements. Also, 71% of these respondents feel the freedom to work from home, setting flexible hours and taking breaks as needed were important factors in their job search.

The survey based on responses collected from 1,810

individuals, including 561 employers and 1,249 jobseekers, was carried out by jobsite Indeed India.

While 63% of the jobseeker respondents registered their preference for hybrid working, 51% of companies also reflected offering such flexibility in their operations. — PTI



NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

CIN: L40101DL1975GOI007966
Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
Tel. no.: 011-24360959 Fax: 011-24360241, Email: csntpc@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

Intimation regarding 47th Annual General Meeting (AGM) and Record Date for payment of Final Dividend

It is hereby informed that the 47th AGM of NTPC Limited will be held on **Wednesday, 30th August, 2023 at 10:30 A.M.** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in line with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and other relevant circulars including circular dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”). In line with aforesaid MCA Circulars and SEBI circular dated 5th January, 2023, Annual Report along with notice of 47th AGM will be sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Company / depository participant/depository.

Notice and Annual Report 2022-23 will also be made available on the Company's website www.ntpc.co.in and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Manner of casting vote(s) through e-voting: In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 47th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting during the AGM. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means. Shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the meeting may participate in the AGM by following instructions given in the Notice of AGM.

Manner of registering / updating email ID & Bank Details: Shareholders who have not registered their email IDs and Bank Account details are hereby requested to register the same in following manner:

For shareholders holding shares in Physical Mode	Please send a request letter signed by the first holder with following details to the RTA of the Company by post at M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at 3 rd Floor, Beetal House, 99, Madangiri, Delhi-110062 or through email at ntpc@beetalfinancial.com with following details / documents:	For updating Bank account
	For updating email ID	For updating Bank account
	1. Folio No. 2. Name of Shareholder 3. Self-attested copy PAN 4. Self attested copy of AADHAR/Driving License/Voter Card/Passport (Signature should match with the specimen signature available with the Company/RTA)	In addition to details required for updating email, following details/documents are required : 1. Bank Account details like Bank Account number, Name of the Bank & Branch, MICR Code/IFSC Code, 2. Cancelled Cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly
For shareholders holding shares in Demat Mode	Shareholders can update email IDs, mobile numbers and Bank Account details by contacting their respective Depository Participants as per the process advised by them.	

Record Date for Payment of Final Dividend

Notice is hereby given that the Company has fixed **Friday, 11th August, 2023** as the Record date for the purpose of payment of final dividend for the financial year 2022-23, if approved by the Shareholders in the upcoming Annual General Meeting of the Company.

TDS on Dividend:

Shareholders may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 (“the Act”) as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 is taxable in the hands of the Shareholders. The Company is, therefore, required to deduct tax at source at the time of payment of dividend to the Shareholders. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Shareholders are requested to submit necessary forms/documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act up to 18th August 2023. The necessary documents, as applicable, are required to be emailed at tdsdiv@ntpc.co.in and dividend.ntpc@taxcp.com, to enable the Company to determine the appropriate TDS rates. For the detailed process, please visit website of the Company <https://www.ntpc.co.in/investor-updates/dividend-tds-communication>.

In case of any further assistance in this regard, Shareholders may contact RTA or Company at above mentioned email/address.

For NTPC Limited
Sd/-
Arun Kumar
Company Secretary

Leading the Power Sector

Hindustan Zinc keen to take part in lithium auctions: CEO

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 23

HINDUSTAN ZINC LTD (HZL) is keen to acquire lithium assets as and when they are put on the block for auctions, CEO Arun Mishra said.

Lithium reserves of about 5.9 million tonnes have been identified in Salal-Haimna areas of Reasi district in Jammu and Kashmir (J&K) for the first time in India.

Auctions of the said reserves



are likely to be held in December. The J&K administration is also in the process of appointing a transaction advisor.

“Absolutely. Why not?” Hindustan Zinc is already in the base metal (sector). Whatever lithium asset will come it will be strategic interest, Mishra

told PTI in reply to a question on plans of acquiring lithium reserves.

The CEO further said, “As base metals are our (company's) area of interest and lithium being one of them, we look forward to exploring the opportunities as such metals are going to be the future which will drive the new world.” Therefore, HZL is open to participate in auctions for the lithium reserves, he added.

Warehousing leasing down 12% across five cities: Colliers

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 23

LEASING OF INDUSTRIAL & warehousing spaces during April-June fell 12% year-on-year to 4 million square feet area across five major cities mainly due to lower demand in Delhi-NCR and Chennai, according to Colliers.

Real estate consultant Colliers India released its India industrial and warehousing market snapshot for the April-June quarter of this calendar year, showing the gross leasing in April-June across five cities fell 44% from the previous quarter.

As per the data, leasing of industrial and warehousing space in Pune region rose 15% to 1 million square feet during April-June period. Mumbai also saw a 12% increase in demand to 9 lakh (0.9 million) square feet in the second quarter of this calendar year.

The leasing in Bengaluru went up 17% to 7 lakh (0.7 million) square feet during April-June. However, the demand remained subdued in Chennai and Delhi-NCR.

The absorption of industrial and warehousing space in Delhi-NCR fell sharply by 49% to 7 lakh (0.7 million) square feet, while the demand dropped 28 percent in Chennai to 7 lakh (0.7 million) square feet during the quarter ended June.

Third party logistics (3PL) players were major drivers of demand with a share of 29% in total leasing, while engineering and e-commerce firms contributed 14% each in the overall leasing across five cities.

In terms of new supply, it declined 11% year-on-year to 4.9 million square feet during the second quarter of 2023.

NOTICE
GRASIM INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: P.O. Birlagram, District-Ujjain, Nagda (Madhya Pradesh)-456331

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders/legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s).

Folio No.	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos. From	To	Name of Shareholder
586745	3098730	1255	445449021	445450275	MRS. REKHA K. PANDYA MR. MAHESH C. PANDYA

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates.
Date : 22.07.2023, Place : Jaipur Rekha K Pandya (Name of Shareholder)



AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for an aggregate amount of ₹19,000 crore (Face Value).

Sr. No.	State/UT	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Greenshoe) option (₹ cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1	Andhra Pradesh	1000	-	12	Yield based
2	Bihar	2000	-	7	Yield based
3	Goa	100	-	10	Yield based
4	Kerala	1000	-	18	Yield based
5	Maharashtra	2000	-	Reissue of 7.32% Maharashtra SGS 2032 issued on May 31, 2023	Price based
6	Manipur	150	-	12	Yield based
7	Punjab	500	-	Reissue of 7.47% Punjab SGS 2034 issued on July 05, 2023	Price based
		250	-	Reissue of 7.43% Punjab SGS 2048 issued on July 05, 2023	Price based
8	Rajasthan	1500	-	10	Yield based
		1000	-	18	Yield based
9	Tamil Nadu	2000	-	10	Yield based
		3000	-	20	Yield based
10	Uttar Pradesh	3000	-	10	Yield based
11	West Bengal	1500	-	18	Yield based
Total		19,000			

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on **July 25, 2023 (Tuesday)**. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (<https://rbiretaldirect.org.in>). For further details please refer to RBI press release dated July 21, 2023 (Friday) on RBI website www.rbi.org.in.

“Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money”



3P LAND HOLDINGS LIMITED

CIN: L74999MH1999PLC013394

Regd. Office : Thergaon, Pune 411 033. Tel: +91-20-40773333, Fax: 91-20-40773388.

E-mail: admin@3pland.com, Website : www.3pland.com

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

(₹ In lakhs unless stated otherwise)

Sr. No.	Particulars	Standalone Results				Consolidated Results			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	31.03.2023	30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	47.02	43.29	46.72	252.42	47.02	43.29	46.72	252.42
2	Profit/(loss) before exceptional item share of profit/(Loss) of Associate and tax	34.72	31.33	36.04	204.50	34.72	31.33	36.04	204.50
3	Net Profit / (Loss) for the period after exceptional item, share of profit / (Loss) of Associate but before tax	34.72	31.33	36.04	204.50	34.72	31.33	36.04	204.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	25.95	23.93	26.97	153.52	25.95	23.93	26.97	153.52
5	Other Comprehensive Income (net of tax)	449.36	-360.45	-1,284.39	-221.07	449.36	-360.45	-1,284.39	-221.07
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	475.31	-336.52	-1,257.42	-67.55	475.31	-336.52	-1,257.42	-67.55
7	Equity Share Capital (face value ₹ 2/- per share)	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
8	Earnings per share (of ₹ 2/- each) Basic & Diluted.(₹.)	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.15	0.85

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 22nd July, 2023.
- The Limited Review under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 has been carried out by Statutory Auditor.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) as amended prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (Website : www.3pland.com).
- Previous periods amounts have been regrouped wherever considered necessary to conform to current period's presentation.

Place : Mumbai
Date : 22nd July, 2023

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
G.N. Jajodia
Chairman

